

नालको NALCO

एनबीसी/एस/4.5 एवं 4.5(ए)/2021/1220
दिनांक: 06.08.2021

NBC/S/4.5 & 4.5(A)/2021/1220
Date: 06.08.2021

प्रबंधक/The Manager बीएसई लिमिटेड/BSE Limited, फीरोज जीजीभोय टावर्स/ Phiroj Jeejeebhoy Towers, दलाल स्ट्रीट/Dalal Street, मुम्बई/MUMBAI- 400 001 स्क्रिप कोड/Scrip Code: 532234	प्रबंधक/The Manager अनुसूचन विभाग/Listing Department नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., National Stock Exchange of India Ltd., एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कम्प्लेक्स, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, बांद्रा ईस्ट/Bandra East, मुम्बई/MUMBAI-400 051 प्रतीक/Symbol: NATIONALUM
---	---

विषय: प्रेस प्रकाशनी दिनांक 06.08.2021- नालको ने वित्तीय वर्ष 21-22 मजबूत आधार पर शुरू किया:
बाजार की उम्मीदों को पार किया।

Sub: Press Release dated 06.08.2021-NALCO Kick-starts FY 21-22 on a Strong Footing:
Beats Market Expectations.

Dear Sir,


In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find a press release on “**NALCO Kick-starts FY 21-22 on a Strong Footing: Beats Market Expectations**”.

The aforesaid information is also disclosed on the website of the company at www.nalcoindia.com.

You are requested to please take a note and disseminate the same in your Exchange.

धन्यवाद/Thanking you,

भवदीय /Yours faithfully,
कृते नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
for National Aluminium Co. Ltd.


(एन.के. महान्ति)

(N.K. Mohanty)

महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
GM & Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above/संलग्न

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
निगम कार्यालय
नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751 013 भारत

National Aluminium Company Limited
(A Government of India Enterprise)
REGD. & CORPORATE OFFICE
Nalco Bhawan, Nayapalli, Bhubaneswar-751013, India

CIN # L27203OR1981GOI000920

Tel.:0674-2301988-999, Ext.:2265, 2266, 2267, 2585, 2587, E-mail:company_secretary@nalcoindia.co.in,Website:www.nalcoindia.com

NALCO Kick-starts FY 21-22 on a Strong Footing: Beats Market Expectations

Q1 Net Profit Zooms to Rs. 347.73 cr with Sales Revenue up by 79.2%

Bhubaneswar, 06.08.2021: National Aluminium Company Limited (NALCO), the Navratna CPSE under Ministry of Mines, Govt. of India and country's leading producer and exporter of alumina and aluminium has kick-started the financial year 2021-22 with robust financial and physical performances. The company has reported impressive results in the 1st quarter ended June 30. The net profit has jumped to Rs.347.73 crore from Rs.16.63 crore achieved in the corresponding period of previous year. Beating market expectations, amidst challenging business environment, the company has demonstrated robust performance across all its business segments.

According to the results taken on record at a meeting of the Board of Directors in Bhubaneswar today, the company has reported revenue from operations of Rs.2474.55 crore, an increase of 79.2% compared to Rs.1380.63 crore achieved in the corresponding quarter of the previous year. This is mainly propelled by strong demand, higher volumes, better realization and effective capacity utilization of its operational units.

On the production front, NALCO has put up an impressive performance. During the quarter, the production of Bauxite, Alumina and Aluminium have been 17.61 Lakh Tonnes, 5.21 Lakh Tonnes and 1.14 Lakh Tonnes respectively, compared to 17.10 Lakh Tonnes, 4.65 Lakh Tonnes and 0.98 Lakh Tonnes respectively in the comparative period of the last fiscal.

नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

निगम कार्यालय

पी/1 नयापल्ली भुवनेश्वर-751013, ओडिशा, भारत

फोन Phone: 91-674-2300680, फेक्स Fax: 91-674-2301290, वेबसाइट Website : <http://www.nalcoindia.com>

CIN: L27203OR1981G01000920

National Aluminium Company Limited

(A Government of India Enterprise)

Corporate Office

P/1, Nayapalli, Bhubaneswar-751013, Odisha, INDIA

नालको NALCO

एक नवरत्न लोक उद्यम A NAVRATNA CPSE

=====

Shri Sridhar Patra, CMD, NALCO, attributed the company's impressive results to the collective and dedicated team work of the employees. "In spite of the challenges imposed due to COVID 19 pandemic, NALCO through strategic planning of raw materials, manpower and marketing initiatives, coupled with continued focus on cost optimization, has been able to steer towards organizational success," he said. Shri Sridhar Patra, has also conveyed his thankfulness to the Ministry of Mines, Govt of India and the State Government for the unstinted support extended to the organization.

नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

निगम कार्यालय

पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, ओडिशा, भारत

फोन Phone: 91-674-2300680, फैक्स Fax: 91-674-2301290

National Aluminium Company Limited

(A Government of India Enterprise)

Corporate Office

P/1, Nayapalli, Bhubaneswar-751013, Odisha, INDIA

वेबसाइट Website : <http://www.nalcoindia.com>

CIN: L27203OR1981GOI000920